

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट: जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 14.08.2022

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 01 करोड 40 लाख रूपये कीमत की 350 ग्राम स्मैक सहित 02

अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्क़र गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्क़रो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन मे थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 13.08.2022 को श्री राजेश बाबू मिश्रा, थानाध्यक्ष जैतीपुर के नेतृत्व मे थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **बनखण्डी पुलिया से फरीदपुर जाने वाले मार्ग पर** समय करीब 20.10 बजे अभियुक्तगण **1.अक्षय कुमार वर्मा 2. शरद** को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से क्रमशः 200 ग्राम व 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई । जिसके सम्बन्ध मे थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 417/2022 धारा 8/22 NDPS ACT बनाम अक्षय कुमार उपरोक्त व मु0अ0स0 418/2022 धारा 8/22 NDPS ACT बनाम शरद मिश्रा उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

बनखण्डी पुलिया से फरीदपुर जाने वाले मार्ग पर, दिनांक 13.08.2022 समय 20.10 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अक्षय कुमार वर्मा पुत्र सुरेशबाबू वर्मा निवासी मोहल्ला साहबगंज कस्बा व थाना अल्हागंज जिला शाहजहाँपुर
2. शरद मिश्रा पुत्र अवनीश मिश्रा निवासी मोहल्ला बगिया प्रथम कस्बा व थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 200 ग्राम स्मैक (अभि0 अक्षय उपरोक्त के कब्जे से)
2. 150 ग्राम स्मैक (अभि0 शरद मिश्रा उपरोक्त के कब्जे से)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 417 /2022 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 418 /2022 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण:-

प्रारम्भिक पूछताछ मे अभियुक्तगण **1.अक्षय कुमार वर्मा 2. शरद मिश्रा** ने बताया कि साहब हम दोनो लोग मिलकर कभी कभी सस्ते दामो मे पंजाब से खरीदकर स्मैक लेकर ट्रेनो से चोरी छिपे आते है और कुछ समय अपने पास रखकर अपने आस-पास के जनपद बरेली , बदायू शाहजहाँपुर ,के ग्रामीण क्षेत्रो मे स्मैक उंचे दामो मे ग्राहको को बेच देते हैं आज हम दोनो को आप लोगो ने पकड लिया है हम लोगो के कब्जे से जो स्मैक बरामद हुयी है उस स्मैक को ग्राहको को अच्छे दामो मे बेचने जा रहे थे । इससे पहले भी कई बार माल लाकर आस पास के क्षेत्रो मे अच्छे दामो मे बेच चुके है हो सके तो माफ कर देना साहब गलती हो गयी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2300 अंकित नेहरा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2778 पवन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2685 प्रवीण शर्मा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2305 प्रशान्त महालवार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 2650 सचिन रावल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 1813 ओमप्रकाश थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर